



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 1978/पौष 19, 1899

No. 18] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 1978/PAUSA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1978

अधिसूचना

सा. का. नि. 23(अ).—केंद्रीय सरकार, खाद्य अपशिष्ट निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपशिष्ट निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कसपथ नियम बनाना चाहती है जिनका निम्नीलिखित प्रारूप, उक्त धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षाानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको उस भारत के राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराई जाएं, दस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से जाँ भी आपत्तियाँ या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

### नियम

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम 1978 है।
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, नियम 44 में तृतीय परन्तुक में "तीन मास अवधि तक" शब्दों के स्थान पर "30 अप्रैल, 1978 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं. पी. 15014/8/77-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) (पी. एफ. ए.)]

एन. एन. वोहरा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, dated the 9th January, 1978

### NOTIFICATION

**G.S.R. 23(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section 23, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of 10 days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

### RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1978.
2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 44, in the third proviso, for the words, "for a period of three months", the words figures and letters "till 30th April, 1978" shall be substituted.

[No. P. 15014/8/77-PH(F&N) (PFA)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.